



वन अर्थ. वन हेल्थ थीम पर न्यायिक परिसर में ...





बस्तर | दंतेवाड़ा | बीजापुर | सुकमा | कांकेर | कोण्डागांव | नारायणपुर

cgiti.admissions.nic.in कोपा ≯इलेविट्रशियन हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर डीजल मैकेनिक फायर टेक्नालॉजी

गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग 8770638793, 9340311314 9303893829, 9300850065 ऑतम तिथि-25/06/25



बच्चों ने जोश और उत्साह के साथ मनाया योग दिवस जगदलपुर। शनिवार को संस्कार द स्मार्ट स्कूल (दलपत सागर वार्ड) में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया । सुबह ७.३० बजे शिक्षक शिक्षकाओं व छात्र छात्राओं द्वारा सामृहिक योग किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों को शिक्षकों द्वारा योग का महत्व समझाया गया । कार्यक्रम को सफल बनाने में योग शिक्षक ने विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्राचार्य एनी पॉल और एडमिन एलेक्स मैथ्यू उपस्थित थे ।

सरकार शिक्षितों को बना रहे अंगूटाछाप

जगदलपुर। निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने जारी बयान में कहा सरकार द्वारा संचालित राशन दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से वितरण की प्रणाली जनहित की जगह जनता के विपरीत



है। वर्तमान में इन मशीनों के होने और फिंगरप्रिंट न पहचाने जाने की

सिद्ध हो रही

वजह से एक-एक हितग्राहियों को छह से सात बार तक अंगूठा लगाना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर उन्हें राशन मिल पाता है। उन्होंने कहा वह भी कभी-कभी मिलता ही नहीं है। यह स्थिति न केवल असुविधाजनक है,बल्कि यह सरकार की तकनीकी लापरवाही और जनभावनाओं के प्रति संवेदनहीनता को भी उजागर करती है। विडंबना यह है कि पहले की सरकारें जहां व्यक्ति को 'अंगुठाछाप' से 'हस्ताक्षरी' बनाकर उसे शिक्षित होने का गौरव देती थीं वहीं आज की सरकार शिक्षित व्यक्तियों से भी जबरन अंगूठा लगवाकर उनकी शिक्षा और गरिमा का उपहास कर रही है।

बड़े नक्सली लीडर के मारे जाने और सरेंडर के चलते लड़ाकों की भर्ती थमी सुदूर संवेदनशील इलाकों में पोस्ट खुलने से भी नक्सल संगठन हुआ कमजोर

सुरेश रावल 🕪 जगदलपुर

बस्तर में दो तरह की बातें चल रही है। पहला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बार बार बस्तर आने और मार्च 2026 तक नक्सलवाद परी तरह खत्म हो जाने का ऐलान क्या सच होगा और दुसरा 4 दशक से अधिक समय से बस्तर में सिक्रय नक्सल विचारधारा अल्पा सचमुच खत्म हो जाएगा। वर्तमान हालात में पुलिस और फोर्स को लगातार सफलता मिल रही है। वहीं नक्सली भी जहां मौका मिला वहां मारकाट कर रहे हैं। हालिया दो घटना ने नक्सिलयों के वजूद को बस्तर की वादियों में

सर्वाधिक कठिन दौर से

<u>गुजर रहे माओवादी</u> इस साल के 6 माह में फोर्स और पुलिस को कई बड़ी सफलताएं मिली है। अंदरूनी इलाके जहां माओवादिओं का एकछत्र राज था, जहां प्रशासन और पुलिस की पहुंच नहीं थी। वहां पर पोस्ट खोलकर सरकार ने विकास कार्य तेज किया। सडक, बिजली,





पोस्ट खुलने से भर्ती पर रोक

बस्तर के अंदरूनी डलाकों में नक्सली जब सक्रिय थे 100 -150 तक संगठन में भर्ती करते थे, लेकिन अब नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में पोस्ट खुल गए है इसलिए कही कही इक्का दुक्का भर्ती हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में भर्ती रुक गयी है। - **सुंदरराज पी** आईजी बस्तर

बरकरार रहने का सबूत दिया है। पहला कोंटा के एएसपी का नेशनल हाईवे के पास आईईडी ब्लास्ट में मारा जाना और दूसरा बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र के पेद्दाकोरमा में 3 ग्रामीणों की गला घोटकर हत्या करना, इसमें 2 छात्र सातवीं और बारहवीं कक्षा के रहे। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष के लिए आर-पार की लडाई चल रही है। और माओवादिओं के लिए अस्तित्व बचाने का गंभीर संकट भी है।

हरिभूमि ने नक्सली संगठन में लड़ाकों के भर्ती के बारे में समर्पित नक्सली, नक्सल इलाके के जनप्रतिनिधि और लंबे समय तक नक्सल क्षेत्र में सेवा देकर रिटायर हुए लोगों से चर्चा की। मुख्य मुद्दा था बस्तर में नक्सलियों 🕦 शेष पेज 14 पर

बसवराजू को एनकाउण्टर में ढेर करने वाले जवानों का बढ़ाएंगे हौसला, ग्रामीणों से होंगे रूबरू

सर्वाधिक नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ क्षेत्र में 3 घंटे रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह

हरिभूमि न्यूज 🕪 जगदलपुर

सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर जवानों का हौसला बढ़ाने वाले पहले केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सुकमा, बीजापुर व दंतेवाडा के बाद अबुझमाड का

गृहमंत्री के ऐलान दौरा करेंगे। इस के मुताबिक 9 दौरान वे नक्सल माह बाद देश से मोर्चे पर तैनात नक्सलवाद का मिट जाएगा मिलकर उनका नामोनिशान हौसला बढाएंगे तथा ग्रामीणों से

भी रूबरू होकर उनकी समस्या सुनेंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष केन्द्रीय गृहमंत्री ने बस्तर से ऐलान किया था कि देश के सभी नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलवाद का खात्मा हर हाल में मार्च 2026 तक कर देंगे। उनके इस ऐलान के बाद उनका यह चौथा दौरा होगा, जब वे

सर्वाधिक नक्सल प्रभावित नारायणपर इरकभट्टी में पहुंचेंगे। यहां पहुंचने वाले अमित शाह पहले केन्द्रीय मंत्री होंगे, जो जवानों के साथ ही ग्रामीणों से भी मिलकर उनकी समस्याओं व मागों को सनेंगे। अबझमाड में आने

का ऐलान अमित शाह ने 21 मई को ही कर दिया था, जब डीआरजी व अन्य बलों के जवानों ने नक्सल संगठन के महासचिव 1 करोड के ईनामी बसवराज्

बस्तर आने की बात 23 जून को तीन घंटे के प्रवास के दौरान अबुझमाड के इरकभट्टी स्थित बीएसएफ कैम्प में जवानों से मिलकर उनका हौसला बढाएंगे ▶ शेष पेज 14 पर

मुठभेड़ में शामिल

जवानों से मिलने

सिक्स लेयर सुरक्षा, गांव से लेकर जंगल व पहाड़ों में भी जवान रहेंगे तैनात केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अबूझमाड़ के इरकभट्टी प्रवास को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। उनके प्रवास को देखते हुए तैयारी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो पूरे इलाके में सिक्स लेयर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान गांव से लेकर जंगल व पहाड़ों तक सुरक्षाबलों के जवान तैनात रहेंगे। प्रवास को देखते हुए इरकभद्री का कायाकल्प नियद नेल्लानार योजना के तहत करते हुए मॉडल विलेज के रूप

में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान अमित शाह इरकभद्री में चल रहे

विकास कार्य व बढ़लाव को नजढ़ीक से ढेखेंगे और ग्रामीणों से चर्चा भी करेंगे

नक्सलियों के गढ में अंतिम दिया था। इसी दिन कील टोकने की तैयारी शुरू मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का यह चौथा बस्तर प्रवास है, जब वे धूर नक्सल प्रभावित इलाके का भ्रमण कर जवानों का हौसला बढाएंगे और ग्रामीणों का विश्वास अर्जित करेंगे। पिछले दो वर्ष की बात करें तो इससे पूर्व अमित शाह २६ मार्च २०२३ को सीआरपीएफ की ८४ वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने सुकमा जिले के पोटकपल्ली अग्रिम सुरक्षा शिविर (एफओबी) का दौरा कर जवानों व ग्रामीणों से रूबरू हुए थे। इसके उपरांत 16 दिसम्बर 2024 को बस्तर ओलिम्पिक के समापन समारोह में हुए थे तथा बीजापुर जिले के गुंडम स्थित अग्रिम सुरक्षा शिविर में जवानों मुलाकात की थी। इसके बाद इसी वर्ष 5 अप्रैल 2025 को बस्तर पंडुम के सभांग स्तरीय समारोह में शामिल हुए थे तथा नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया था। इसके बाद २३ जुन को उनका चौथा प्रवास है, जिसमें अमित शाह नक्सिलयों को गढ़ माने जाने वाले नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र का दौरा कर जवानों का हौंसला बढाएंगें और ग्रामीणों से रूबरू होंगे। उनका यह दौरा नक्सिलयों के गढ़ में अंतिम कील ठोकने की तैयारी कही जा रही है। गृहमंत्री के ऐलान के मुताबिक नौ माह बाद देश से नक्सलवाद का नामोनिशान मिट जाएगा।

वनभूमि पर अतिक्रमण, सुकमा के 26 लोगों को जेल भेजा गया



हरिभुमि न्यूज 🕪 जगदलपुर

बस्तर वन मण्डल जगदलपुर के अंतर्गत माचकोट वन परिक्षेत्र के

करीपदर नाला आरएफ 1231 में आरोपियों के टिकरीपदर कटाई, सफाई में प्रयुक्त औजारों पास वनक्षेत्र सुकमा

ग्राम कुकानार से आए 26 अतिक्रमणकारियों द्वारा वनभूमि में खेती के उद्देश्य से वृक्षों की कटाई-सफाई किया जा रहा था। वर्तमान में वन मंत्री केदार कश्यप द्वारा वन भूमि में अवैध अतिक्रमण, अवैध कटाई, अवैध परिवहन एवं अवैध उत्खनन के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके तारतम्य में वन विभाग जगदलपुर वृत्त के मुख्य वन अवैध अतिक्रमण. कटाई रोकने प्रस्ताव पारित

बस्तर वनमण्डल वन मण्डलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने सभाओं को पत्र के माध्यम से तथा कोटवारों से मुनादी करवाकर अवैध अतिक्रमण एवं कटाई रोकने हेतु प्रस्ताव पारित करने की अपील की गई है इस तरह की अपराधों में आरोपियों के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जावेगी।

संरक्षक आरसी दुग्गा एवं वन मण्डलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में उप वन मण्डलाधिकारी जगदलपुर देवलाल दुग्गा एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी माचकोट सूर्यप्रकाश ध्रुव के नेतृत्व में लगातार गश्ती की कार्यवाही किया जा रहा है। इसमें 19 जन को गश्ती के दौरान लगभग शाम 4 बजे हेमन्त मरकाम एवं अन्य 25 व्यक्ति सभी निवासी 🕨 शेष पेज 14 पर

प्रदेश भर में खनिज माफिया

किसानों को खाद नही मिल रही युक्तियुक्तकरण फेल : बैज

हरिभूमि न्यूज 🕪 जगदलपुर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शनिवार को राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हए कहा कि भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार हर क्षेत्र में विफल हो रही है। किसानों

3500 स्कूलों नहीं मिल रहा है, युक्तियुक्तकरण के नाम

पर स्कलों को बंद किया जा रहा है। प्रदेशभर में खनिज व रेत माफिया सिक्रय है, गोली चला रहे हैं और चाकु भी मार रहे हैं। वहीं गली-मोहल्ले में अवैध शराब बिक रहा है। इस तरह छत्तीसगढ को भाजपा शराबगढ बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत है पर

को इस समय खाद-बीज सरकार के पास मात्र 38 हजार मीटिक टन ही

खाद उपलब्ध है, जिसके चलते किसान नाराज हैं और धान बोआई प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस सोसायटियों में प्रदर्शन करेगी। उनहोंने कहा कि पूर्व में भी भाजपा सरकार ने 3500 स्कूलों को बंद किया था,जिसका खामियाजा आदिवासियों को भगतना पडा था। कांग्रेस सरकार आने के बाद उन स्कूलों को फिर से खोला गया था। अब फिर 10463 🔰 शेष पेज 14 पर

विवादित डॉक्टर दंपति की गीदम वापसी, फिर से विरोध के संकेत

गीदम। कोविड काल में गीदम में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के प्रभारी रहे डॉ. देवेंद्र प्रताप सिंह व उनकी पत्नी डॉ. शीतल सिंह को स्थानीय लोगों के भारी विरोध के चलते हटाया गया था. उसी दंपति की फिर से गीदम में

कोविड अस्पताल प्रभारी रहने के दौरान चक्काजाम के बाद दटारा। गरा। शा

पोस्टिंग होने से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वर्ष 2022 में गीदम निवासियों ने नेशनल हाईवे-63 पर चक्का जाम कर डॉ. दंपित को हटाने की मांग की थी। विरोध प्रदर्शन करने

वालों का आरोप था कि डॉ. देवेंद्र प्रताप सिंह व उनकी पत्नी का व्यवहार मरीजों के प्रति ठीक नहीं रहता है। साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। इसके बाद सीएमएचओ ने दोनों को वापस मुख्यालय बुलवा लिया था। तीन साल बाद यह कहानी फिर से दोहराई जा रही है। गौरतलब है कि डॉ. देवेंद्र प्रताप सिंह के कार्यकाल में निर्मित मातृत्व, शिशु अस्पताल एमसीएच गीदम में हुई आगजनी का मामला भी अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। इस बीच डॉ. देवेंद्र प्रताप सिंह 🔰 शेष पेज 14 पर

मानसून आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ तैयार

हरिभूमि न्यूज 🕪 जगदलपुर

बस्तर संभाग के 7 जिलों में बाढ़ से निपटने की व्यापक तैयारी की गई है। प्रशासन ने कंटोल रूम के नंबर भी

इंद्रावती नदी व मार्कण्डी नदी के हर घंटे हो रही जांच

भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित जलस्तर की करने को कहा गया है। बस्तर में मानसन पर बाढ

तहसील स्तर पर

से निपटने के लिए तैयारियां परी कर ली गई हैं। नियंत्रण कक्ष में हर एक घंटे में इंद्रावती नदी एवं मार्कण्डी नदी का जलस्तर ले रहे, जिससे बाढ़ की स्थिति पूर्व में ही हो सके। जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से निपटने एवं बेहतर प्रबंधन के लिये



<u>बाढ़ से निपटने की व्यापक तैयारी</u>

आपातकालीन रिथति के लिए मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है। खासकर डुबान क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। इंद्रावती नदी से सटे इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राहत शिविर को भी पहले से चिन्हांकित करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों में बाद से निपटने की व्यापकर तैयारी है। प्रशासन ने कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं. तहसील स्तर पर भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा गया है।

बाढ़ आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है, ताकि जन-धन की सरक्षा और नियंत्रण हो सके। इंद्रावती नदी का जलस्तर ७ मीटर वानिंग लेबल

तथा 8.30 मीटर डेंजर लेबल है। जिले में बाढ़ से प्रभावित ग्रामों को चिन्हांकित किया गया है। बाढ नियंत्रण समिति 🔰 शेष पेज १४ पर



सर्व आदिवासी समाज शीघ्र ही करेगा उग्र आंदोलन

समाज व संगठन को दबाव डाल कर कुचलने का प्रयास

हरिभूमि न्यूज 🕪 जगदलपुर

बस्तर अंचल के विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाने वाले समाज एवं संगठन को दबाव डाल कर कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हाल ही में तेंद्रपत्ता बोनस घोटाले के संबंध में आवाज उठाने वाले पर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर में छापा मारा गया, यह कार्रवाई आवाज उठाने वाले दबाने के लिए की गई। साथ ही बस्तर के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। इस पर सर्व आदिवासी समाज शीघ्र ही उग्र आंदोलन करेगा। उक्त बातें सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष गंगा नाग, युवक अध्यक्ष संतु मौर्य ने शनिवार को आयोजित पत्रवार्ता में कही।

उन्होंने कहा कि बस्तर में परिस्थितियां लगातार विषम होती जा रही है इस परिस्थिति में आदिवासी समाज की कुछ चिंताएं उभर कर सामने आ रही हैं, जिन पर अपनी बात रखना आवश्यक है। कवासी लखमा के मंत्रित्वकाल में



संभाग के सभी समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किए हैं, विभिन्न मामलों में कैद बंदियों के मामलों को समाप्त करते हुए न्यायालय से उन्हें बरी करवाया। बस्तर में वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को उनके प्रयास से पुनः शुरू किया गया। विशेष पिछडी जनजाति के बच्चों को एमबीबीएस में प्रवेश दिलवाया गया। स्थानीय भर्ती के मुद्दे पर अपने ही सरकार से लडते रहे। जल, जंगल, जमीन को बचाने के विभिन्न आंदोलनों का उन्होंने मुखरता से नेतृत्व किया है। इसके अलावा बच्चों की संख्या के आधार पर नहीं अपित कक्षा और

विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना की जावे। वैसे

भी बस्तर जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्र को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शासन, प्रशासन सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। नगरनार का निजीकरण कर के बस्तर को बड़ी कॉम्पनियों के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा है। बैलाडिला की पहडियां और बस्तर के सभी जिला की खदानों को निजी हाथों में दे कर जो लोहा 70 साल में निकाला जाना था यह 10 साल में ही निकाल लिया जा रहा है। आश्रम शाला, छात्रावास में लगातार आदिवासी लडिकयों के साथ बलात्कार और लैंगिक उत्पीडन

घुसपैटियों की जांच <u>कर वापस भेजा जाए</u>

उन्होंने कहा कि बस्तर की जंगल जमीन को बिना विधिवत अधिग्रहण किए विकास के काम के लिए ले लिया जा रहा है, जिससे बस्तर के जंगल में बहुत तेजी से कमी आई है। आदिवासियों की एवं गैर आदिवासियों की जमीनों पर राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के . साथ ही भूमाफियों का गिरोह हड़प रहे हैं। संभाग के विभिन्न जिलों में बांग्लादेशी अवैध घसपैठियों के द्वारा यहां की प्राकृतिक संसाधन के साथ-साथ मानवीय संसाधनों पर भी अवैध हडपांतरण चल रहा है इस मामले को लेकर समाज द्वारा ५-६ सालों से लगातार आवाज उठाते आ रहा है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही प्रशासन नहीं करती है हम आज भी इस पर मांग करते हैं कि अवैध घूसपैठियों की पूरी जांच करके उनको

JOB ALERT!

Varghese Builders is hiring

One Sr. Accountant

Minimum of 5 years of experience in accounting and strong working knowledge

Three Jr. Accountants

minimum of 2 years of experience in accounting and strong working knowledge

Two Site Engineers

minimum of 2 years of experience and a qualification of BE (Civil) or Diploma in Civil Engineering.

Three Sales Executives

Job Location: Jagdalpur

good communication skills and a minimum of 3 years of experience in sales.

Send your Resume to hr@varghesegroup.com

For any doubts, call (091) 975 358 4306.



खबर संक्षेप

अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए

संघर्ष कर रहे है। आदिवासी समाज

की कुछ चिंताएं उभर कर सामने

आ रही हैं जिन पर अपनी बात

अंचल के विभिन्न महों को

प्रमुखता के साथ उठाने वाले

रखना आवश्यक है। सर्व समाज

के अध्यक्ष का कहना हैं कि बस्तर

समाज प्रमुख व संगठनों को दबाव

डाल कर कुचलने का प्रयास किया

जा रहा है। जब कोई आदिवासियों

के हक अधिकार की बात करता है

या उनकों अधिकारों की जानकारी

देता है तो वह मानो कोई गुनाह कर

बोनस घोटाले के संबंध में आवाज

देता है। जैसे हाल ही में तेंद्रपत्ता

उठाने वाले पूर्व विधायक मनीष

कुंजाम के घर में छापा मारा गया

तरीके से आवाज उठाने वाले को

दबाने के लिए की गई कार्यवाही है।

आदिवासियों को प्राप्त संवैधानिक

अधिकारों का खलम खला

उल्लघंन शासन प्रशासन द्वारा

किया जा रहा है। आश्रम शाला /

छात्रावास में लगातार आदिवासी

लड़िकयों के साथ बलात्कार और

लैंगिक उत्पीड़न की घटनाएं हो

रही है। पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में

खिलवाड किया जाता है।

के विस्थापन किया जाता है।

जुडो खिलाडी हेमवती

आदिवासियों की अस्मिता के साथ

आदिवासी लोगों को बिना सहमति

नाग को मिला पंख अवार्ड

कोण्डागांव। 41वीं वाहिनी भारत

प्रशिक्षण प्राप्त कर रही कोण्डागांव

की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को

वर्ष 2025 के लिए पंख अवार्ड से

समारोह में प्रदान किया गया, जहाँ

उन्हें 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन

राशि भी दी गई। हेमवती नाग वर्ष

2019 में माता-पिता के निधन के

बाद छत्तीसगढ राज्य बाल कल्याण

परिषद्, कोण्डागांव में रह रही है।

वे एक उत्कृष्ट जुड़ी खिलाड़ी है और वर्ष 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से भी नवाजा गया

था। राष्ट्रीय स्तर पर वे अब तक 4

पदक जीत चुकी हैं। हेमवती वर्ष

2020 से 41वीं वाहिनी भातिसी

सिपाही जीडी उदय सिंह यादव से

नियमित प्रशिक्षण ले रही हैं। उनकी

पुलिस बल में जुडो प्रशिक्षक

सफलता के पीछे प्रशिक्षक के

कोण्डागांव जिला प्रशासन का

सहयोग भी अहम रहा है। हेमवती

नाग की इस उपलब्धि की सराहना

क्षेत्रीय मुख्यालय भुवनेश्वर के उप

महानिरीक्षक संजीव रोलबा और

41वीं वाहिनी के कमांडेंट नरेन्द्र

अधिकारियों ने उनके उज्ज्वल

भविष्य की कामना भी की है।

आईटीआई में प्रवेश के

लिए आवेदन की अंतिम

कोण्डागांव। कोंडागांव जिले में

संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण

2025-26 और 2025-27 के

जिले के कोंडागांव, फरसगांव,

माकड़ी, मर्दापाल, बड़े राजपुर,

ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम

तिथि 25 जून को रात 11:59 बजे

है। पूरी प्रवेश प्रक्रिया चार चरणों में

होगी। पहले चरण की मेरिट सची

26 जुन को, चयन सुची 27 और

29 जन को जारी होगी, तथा प्रवेश

30 जून से 2 जुलाई तक लिए जा

सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी पोर्टल पर

माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर

प्रशिक्षण संस्थानों से संपर्क किया

सकते हैं। अधिक जानकारी के

लिए शासकीय औद्योगिक

जा सकता है।

या निकटतम चॉइस सेंटर के

स्थित आईटीआई केंद्रों में

लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है।

विश्रामपरी, केशकाल और धनोरा

संस्थानों आईटीआई में सत्र

तिथि २५ जुन

सिंह द्वारा की गई है। दोनों

मार्गदर्शन के साथ-साथ

तिब्बत सीमा पुलिस बल में

सम्मानित किया गया है। यह

सम्मान रायपुर में आयोजित

यह कार्यवाही एक संवैधानिक

प्रधान जिला एवं सत्र बस्तर में आदिवासी न्यायालय कोण्डागांव अस्तित्व संकट में, खतरे में 21 जून 2025 को में सांस्कृतिक विरासत अंतर्राष्ट्रीय योग नारायणप्र। बस्तर संभाग में परिस्थितियां लगातार विषम होती दिवस के अवसर पर जा रही है,इस परिस्थिति में योगाभ्यास कार्यक्रम आदिवासी को अपने रीति रिवाज, परंपरा एवं अमूल्य सांस्कृतिक आयोजित किया विरासत विलुप्ती के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। आदिवासी

वन अर्थ, वन हेल्थ थीम पर न्यायिक परिसर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

हरिभूमि न्यूज 🕪 कोण्डागांव।

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई ढिल्ली एवं छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपूर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव किरण चतुर्वेदी' के मार्गदर्शन में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर 2025 की थीम योगा फोर वन अर्थ वन हेल्थ के अवसर पर परिवार न्यायालय परिसर के प्रांगढ में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारभ मॉ सस्स्वती की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित माननीय न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया। योग दिवस के आयोजन का उद्देश्य न्यायालय से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं में तनाव, मानसिक शांति एवं शारीरिक स्वास्थ्य के पति जागरूकता बदाना रहा। इस अवसर पर सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। माननीय न्यायाधीश महोदय विक्रम प्रताप चन्द्रा के द्वारा मानव जीवन में योगा का महत्व बताते हुए योग के माध्यम से सभी को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दिये। लखन लाल पटेल अधिवक्ता योग शिक्षक एवं उनके योग साथियों के द्वारा समय प्रातः ७:३० बजे से ९:०० बजे तक लगातार अलग-अलग आसन कराये गए। इसके पश्चात सभी न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं में एक विशेष उर्जा का संचार हुआ साथ ही योग प्रशिक्षकों के द्वारा व्यायाम, आहार एवं आराम के महत्व को भी समझाया गया और योग को अपने जीवन की दिनचर्या का भाग बनाने के संबंध में जानकारी दी गई। योगाभ्यास कार्यक्रम के पश्चात पौष्टिक आहार का वितरण किया गया तथा इस प्रकार न्यायालय परिवार के आपसी सहयोग से 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्प्रकलतापर्वक मनारा गरा।

ये रहें उपस्थितः इस अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्याराधीश कोण्डागांव विकस प्रताप चन्द्रा, जिला छवं अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो कोण्डागांव यशोदा नाग, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नारायणपुर हरेन्द्र सिंह नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव शिव प्रकाश त्रिपाठी एवं सचिव जिला विधिक येवा पाधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय तथा प्रशिक्ष न्यायिक अधिकारीगण अधिवक्तागण व कर्मचारीगण एवं करें योग-रहें निरोग, योग हमारे देश की पुरातन विधा है: देव

जगदलपुर। ११ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग संगम और हरित योग थीम पर सामृहिक योग कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में किया गया। योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव शामिल हुए। इस अवसर पर किरण ढेव ने कहा कि करें योग-रहें निरोग इसी भावना के साथ स्वस्थ शरीर के लिए नियमित योग आसनों का अभ्यास करें। भारत वर्ष की परातन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष



कसरत के रूप में पहचान मिली है। आज पूरे विश्व सहित प्रदेश के सभी

जगहों पर योगाभ्यास किया गया। इस दौरान विधायक ने एक पेड माँ के नाम के तहत स्टेडियम परिसर में पौधरोपण किया।

ये रहे उपस्थित : कार्यकम में महापौर संजय पाण्डे, जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे . निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन,सुरेश गुप्ता, संग्राम सिंह राणा, जनप्रतिनिधि, आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर हरिस एस, सीईओ जिला पंचायत प्रतीक जैन, वन मंडलाधिकारी उत्तम गप्ता जिला स्तरीय अधिकारी तथा

गायत्री परिवार के योगाचार्य ने कराया छात्र-छात्रओं को योगाभ्यास

सांस्कृतिक धरोहर है, जो आज पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक बन चुका है। हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय योंग दिवस आज न केवल भारत. बल्कि वैश्विक स्तर पर जन—जन को जोड़ने वाला पर्व बन गया है। यह भारत के उस संदेश को

सशक्त करता है जिसमें एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की भावना निहित है। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बहीकोंगा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास कार्यक्रम का सफल आयोजन

स्काउटस छत्तीसगढ संस्था के प्रभारी एवं शारीरिक शिक्षक ऋषिदेव सिंह के मार्गदर्शन में गायत्री परिवार के योगाचार्य अतिल बघेल

जयपाल नेताम द्वारा छात्र–छात्रओं को योगाभ्यास कराया गया। योग दिवस का यह कार्यक्रम न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला रहा, बल्कि छात्रें में आत्मअनुशासन और भारतीय परंपरा के प्रति सम्मान की

जिला न्यायालय परिसर में मनाया गया ११वां अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस

को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष गोविन्द नाराराण जांगडे के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग समिति से योग शिक्षिकाएं श्रीमती गायत्री

बडकस, श्रीमती बबीता पाण्डेय एवं श्रीमती विभा सिंह के सहयोग से जिला न्यायालय परिसर में योग शिविर लगाया गया। शिविर में समस्त न्यायाधीश. जिला अधिवक्ता संघ के .थश्यक्ष ,थञ्चा हाज्य जहित ,थशितस्ता शासकीय अभिभाषक, प्रशासनिक अधिकारी सहित जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा पाधिकरण तथा लीगल एड डिफेंस कौंसिल के समस्त कर्मचारी शामिल रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा बस्तर जिले के अन्य क्षेत्रों में भी योग कार्यक्रम का आयोजन करते हुए उपस्थित जनों को निरंतर योग करने की सलाह देते हुए उन्हें स्वस्थ रहने हेतु प्रेरित भी किया गया। योग से होती उँजी

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष गोविन्द नारायण जांगडे ने आयोजित योग शिविर में बताया कि स्वस्थ रहने के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है। आज मनुष्य अपने जीवन में कितना व्यस्त है

इसलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है। योग से शरीर में आवश्यक उर्जा बनी रहती है। योग न केवल शारीरिक फुर्ती और शक्ति को बढ़ाता है बल्कि मन की एकाग्रता में सुधार भी करता है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योग को निरंतर अंपनाना चाहिए।

स्वस्थ रहने किया प्रेरित

अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुश्री अंकिता कश्यप सचिव जिला विधिक सेवा पाधिकरण द्वारा शासकीय बालगह जगढलपर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करते हुए बालगह के समस्त बच्चों को योग के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु प्रेरित किया गया। अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित बच्चों को योगा के लाभ बताए जाने हेत् प्राधिकरण द्वारा छपाए गए पाम्पलेटस का

हायर सेकंडरी स्कूल मयूर डोंगर में हुआ भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम

कोण्डागांव। विश्व योग दिवस के अवसर पर हायर सेकेंडरी स्कूल मयूर डोंगर में एक भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः ६:३० बजे से प्रारंभ होकर लगभग तीन घंटे तक चला। इस दौरान विद्यार्थियों शिक्षकों एवं समस्त विद्यालय परिवार ने

कार्यक्रमें की शुरुआत सूर्य नमस्कार से की गई, इसके पश्चात अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम मयुरआसन, चक्रासन, सहित विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया गया।

पशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को इन योग कियाओं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, रोग पतिरोधक क्षमता बढ़ती है. तनाव कम होता है तथा मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य मुकेश सैमसंग ने विद्यार्थियों को योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग भारत की प्राचीनतम जीवनशैली का अभिन्न अंग है. जिसे आज पूरे विश्व ने अपनाया है। उन्होंने सभी को



दैनिक जीवन में योग को शामिल करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ व्याख्याता जमील अहमद खान, व्याख्यातागण हेमंत देहारी, श्री दीवान, रीता प्रधान, दुलेश्वरी दर्रो, संजीव तालुकदार, सूषमा पात्र, सारिका कश्यप प्रमानंढ बैद्य भारत ढेवांगन सहित समस्त स्टाफ सदस्य एवं भारी संख्या में विद्यार्थी शांतिपाठ एवं सामहिक ध्यान के साथ हुआ। सभी ने इस आयोजन को सराहना की एवं भविष्य में भी

स्वास्थ्य और संस्कृति का संगम, फरसगांव में मनाया गया ११वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस शनिवार को मनाया गया, इसी कडी में फरसगांव जनपढ पंचायत एवं नगर योग कार्यक्रम का शभारंभ मख्य पंचायत अध्यक्ष प्रशांत पात्र की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान

कहा योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढाता है बल्कि सामाजिक कल्याण में भी योगढान देता है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को बनाने का भी काम करता है, योग को व्यक्तिगत विकास और सामाजिक बेहतरी के साधन के रूप में बढ़ावा देता है, इसलिए सभी को रोजाना योगाभ्यास करना चाहिए। वहीं योग के प्रति जागरूक करते हुए टीएल नाग ने कहा कि शारीरिक और मार्निसक स्वास्थ्य के लिए योग फायदेमंद है। कई बीमारियों से निपटने के लिए योग



योगाभ्यास करने की सलाह दी जाती है। योग हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि योग के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता। योगा के दौरान नायब तहसीलदार निधि नेताम, पार्षद शैल सेठिया, राजकुमारी नेताम, रीता गौतम, टीएल नाग, सन्तोष देवांगन, वीरेन्द्र साह्, कामेश्वर साहू, प्रेम नाग, युगल, मोहित सिंह सहित अन्य नगर वासियों की उपस्थिति में योग प्रोटोकॉल अनुसार योगाभ्यास

एनसीसी की गर्ल्स कैडेट्स ने किया योगाभ्यास



बडेडोंगर में शनिवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति में एनसीसी की 25 सीनियर डिवीजन गर्ल्स कैडेटस (सीडीटीएस) ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों ने भी योगाभ्यास में भाग लिया और सभी को नियमित योग करने हेत् प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन तथा अनुशासन के प्रति जागरूकता बढाना था। कैडेट्स ने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम ताडासन, वक्षासन आढि योग कियाओं का अभ्यास कर ।"योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी की भावना को साकार किया। विद्यालय परिवार एवं एनसीसी इकाई द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

एडीएम के व्यवहार से डॉक्टरों में भारी असंतोष, डॉक्टर्स ने दी ओपीडी बंद की चेतावनी

हरिभूमि न्यूज 🕪 नारायणपुर

नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में एडीएम की कार्यशैली से जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों में भारी नाराजगी दिख रही हैं। एडीएम बीरेन्द्र बहादर पंचभाई द्वारा किए जा रहे व्यवहार से क्षब्ध होकर डॉक्टरों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर चार दिनों का अल्टीमेटम दिया हैं। डॉक्टरों की मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं

 डॉक्टर्स ने दिया चार दिनों का अल्टीमेटम, अतिरिक्त कलेक्टर के खिलाफ डॉक्टरों

करने पर ओपीडी बंद करने की चेतावनी दी गई एडीएम बीरेन्द्र बहादुर चिकित्सकों में भय एवं ने खोला मोर्चा असंतोष का वातावरण

होने की बात कही जा रही है। कलेक्टर की प्रतिष्ठा ममगाई को दिए शिकायती पत्र में डॉक्टरों ने लिखा हैं कि जिला अस्पताल नारायणपुर के चिकित्सक आपके संज्ञान में एक गंभीर और लगातार हो रही समस्या को लाना चाहते हैं। अतिरिक्त कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई द्वारा जिला अस्पताल के कई चिकित्सकों के साथ उनके कक्ष में समय-समय पर दुर्व्यवहार, अपमानजनक भाषा का प्रयोग एवं अनौपचारिक व्यवहार किया गया है, जिससे चिकित्सकों में भय

कार्यशैली

एवं असंतोष का वातावरण बना हआ है। हाल ही में हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जयश्री साहू के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हई। वे टांजिट हास्टल के कक्ष क्रमांक 8, जो वर्तमान में रिक्त है. में आवास आवंटन के संबंध में अनरोध लेकर पंचभाई के पास गई थीं। डॉ. साह स्वास्थ्य और चलने-फिरने में कठिनाई का सामना कर रही हैं, इसीलिए उन्हें वह कमरा आवश्यक था। परंतु अतिरिक्त कलेक्टर महोदय ने उनसे अनुचित भाषा में बात की, जिससे वे मानसिक रूप से आहत हुई। इससे पूर्व भी कई बॉन्डेड डॉक्टर एवं विशेषज्ञों द्वारा इसी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायतें की गई हैं। पंचभाई द्वारा व्यक्तिगत रूप से डॉक्टरों को अपने स्वयं के

कि इस जिला अन्यासन गरावासपुर के विकित्सकारण अनपक्ष संद्राज में एक गंभीर और जार लागा भावते हैं। अग्रितिकत करनेल्य को बोरेन्द्र बरादुर पंचमाई द्वारा प्रिणा अन्यतान के कई य जनके को में सन्य-संपय पर दुर्शकार, अस्यान्यज्ञनक धन्या कर प्रारोग ग्रंड अग्रिपकारिक क में विकित्सकों में प्याप ने असंगोम का साम्यत्यन कर दुना है।

इलाज एवं अन्य उच्च अधिकारियों के लिए निवास पर बलाना, बेवजह दोषी ठहराना, अस्पष्ट और अनाधिकारिक चिकित्सा निर्देश देना तथा कई बार अपने सहयोगियों व परिजनों को ओपीडी समय के बाहर या निवास पर इलाज के लिए बाध्य करना, यह सब व्यवहार न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि चिकित्सकों की गरिमा और कार्य स्वतंत्रता के लिए भी अत्यंत

पत्र का अंतिम में डॉक्टरों की ओर से लिखा गया है कि 24 जून मंगलवार तक इस प्रकरण में कोई कार्यवाही एवं क्षमा याचना नहीं की जाती है तो हम विवश होकर जिला अस्पताल नारायणपर की ओपीडी सेवाओं को आगामी आदेश तक स्थगित करने के लिए बाध्य होंगे। इसका संपर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा।

ये है प्रमख मांग

सभी प्रकरणों की निष्पक्ष जांच की जाए। डॉ. जयश्री साह के मामले की प्राथमिकता से जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। भविष्य में चिकित्सकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए एवं ऐसी घटनाओं की पनरावत्ति रोकी जाए चिकित्सकों को उनके सेवा दायित्व निर्वहन में भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। डॉ. जयश्री साह से किए गए व्यवहार के लिए अतिरिक्त कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई द्वारा लिखित माफी पत्र दिया जाए तथा समस्त चिकित्सकों के समक्ष सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की जाए।

पेज १३ के शेष

का आगमन, संगठन का विस्तार और बस्तर के युवाओं का नक्सल संगठन से जुड़ना। शुरूवात में गिनती के नक्सली आंध्रपादेश से बस्तर में आकर नक्सल विचारधारा को जनता के बीच लाकर उनका विश्वास जितने का प्रयास किया। वर्ढी और बंदक के फेर में अशिक्षित गांव के आदिवासी लंबे समय तकें असमंजस में रहे कि सरकार के साथ रहे या नक्यिलयों का साथ दें। लगभग १३ साल १९८७ से लेकर २००० तक नक्सिलयों के साथ रहे नक्सली कमांडर तक का ओहदा पाकर सकिय रहे बदरन्ना ने कहा कि मैं जब नक्सल संगठन से जड़ा वह समय बस्तर में माओवाढियों का शुरूवाती दिन था। मात्र 15 साल की अवस्था में मै शामिल हो गया। आंध्रप्रदेश के वेंकटापुरम जो अब तेलंगाना में है, वहां से नक्सली बस्तर आए। पहले वे महेड्, कुटरू, बासागुड़ा और कोंटा चार बलम बनाकर लोगों के बीच पहुंचे। सीमा क्षेत्र में रहने वाले बस्तर के ग्रामीणों को तेलगु भाषा अच्छे से आती है इसलिए नक्सिलयों को भाषा की दिक्कत नहीं हई। लेकिन नये इलाके में ग्रामीणों के साथ सामंजस्य बनाकर मजबूत होने में समय लगा।

तेंढपता. फॉरेस्ट और ठेकेढार के मसले पर संगठन हुआ ः नक्सल कमांडर बदरन्ना ने कहा बस्तर में तेंढपता. फारेस्ट और ठेकेढार का ढबढबा था। जिसके कारण आदिवासियों का जमकर शोषण हो रहा था. ऐसी स्थिति में नक्सिलयों ने आदिवासियों का विश्वास पाने के लिए उनके साथ रहकर उनके संघर्ष में सहभागी बने। इसी दौरान नक्सल क्षेत्र के ग्रामीण जिनके पास बच्चों को खिलाने के लिए अनाज भी नहीं था और पढ़ाने के लिए कोई अवसर नहीं था। इसका फायदा माओवादिओं को मिला। आदिवासियों के साथ घर घर से दोना में इकट्टा किए गए चावल कोदो कुटकी से बने भोजन को मिल बैठकर खाते रहे। जिससे ग्रामीणों को लगा कि यह हमारे श्रुभचिंतक है।

पुरुष, महिला के बाद बच्चों का लिया सहाराः बदरन्ना की तरह हिडमा भी 15-16 साल की उम्र में नक्सल संगठन से जुड गया था। बदरन्ना का कहना है कि पूवर्ती का खूंखार नक्सली हिडमा नक्सल संगठन में भर्ती मेरे समय हुआ था। उसका हाईट लंबा था और वह तेज तर्रार लगा। इसलिए उसे सीधे संगठन में ले लिया गया। मिलिट्री की जानकारी कम उम्र का होने से वह जल्दी सीख लिया। उसने बताया कि शुरूवात में जब नक्सली बस्तर आए, उस समय संगठन जैसा कोई व्यवस्था नहीं था। पहले युवाओं के लिए दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ और उसके बाद महिलाओं जोड़ने के लिए ढण्डकारण्य आढ़िवासी किसान महिला संघ के नाम से संगठन बनाया गया। उसके बाद बाल संघम बनाकर बच्चों की सेवा ली गई। जिन बच्चो को खाना नहीं मिलता था वे गरीबी के कारण पढाई नहीं करते थे, उनसे वे सूचना एकत्र करने का काम लेते थे, जैसे पुलिस आने पर खंबर कर ढेना।

सर्वाधिक कठिन....

और राशन जो सबके के लिए आवश्यक है, वह लोगों को मिलने लगा जो आजादी के बाद से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा था। सूत्रों का कहना है कि नक्सल चीफ बसवराजू के मारे जाने और सेंट्रल कमेटी रैंक के बड़े नक्सल लीडरों का मारा जाना नक्सिलयों के लिए काफी नकसानदायक साबित

हुआ। इस बीच बडी संख्या में नक्सल संगठन को छोडकर न विसिलियों का सरेंडर करना भी नक्सल भर्ती में बाधा पैदा की। इस समय नक्सली कठिन दौर से गुजर रहे है और एक तरह से लडाको की भर्ती थम गई है।

सर्वाधिक नक्सल

और इरकभद्री के ग्रामीणों से रूबरू होकर उनका हाल जानेंगे। जिला मुख्यालय नारायणपुर से लगभग ४५ किमी दूर इरकभद्री एक समय नक्सिलयों का गढ माना जाता था। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्में के एलान के बाद ठीक एक माह पूर्व 21 मई को जवानों ने बसवराजू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जो नक्सिलयों के खिलाफ चलाएँ जा रहे एटी नक्सल अभियान की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है।

वनभूमि पर अतिक्रमण...

कुन्दनपाल जिला सुकमा द्वारा अतिक्रमण के उद्देश्य से वृक्षों की कटाई एवं सफाई किया जा रहा था। आरोपियों को पकड़कर कटाई सफाई में प्रयुक्त औजारों को जप्त किया गया। आरोपियों को वन परिक्षेत्र कार्यालय धनपूंजी में लाकर पुछताछ किया गया. जिसमें उन्होंने अवैध रूप से खेती करने के लिए अतिकमण करना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात हेमंत मरकाम एवं अन्य २५ व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की सुसंगत धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बस्तर के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में उक्त

आरोपियों को केन्द्रीय जेल जगदलपुर में भेजा गया। कार्यवाही में शामिल रहेः इस कॉर्यवाही में वन परिक्षेत्र माचकोट के वनपाल बुधसन राम बघेल, लच्छुराम मरकाम, घुनुराम मरकाम, धीरंज सिंह ठाकुर, वनरंक्षक अरविंद कोर्राम, सुकुलधर बघेल, बामन पोयॉम, जयदीप सिंह, प्रमोद नेताम, राजाराम कश्यप, रमेश बघेल, मोहन भारती, सुनील कुमार बंघेल एवं सुरक्षा श्रमिकों का सहयोग रहा। वर्तमान में वनों की सुरक्षा हेतुँ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वनक्षेत्र में गश्ती लंगातार जारी है।

ग्रामीणों को कर रहे जागरूकः उप वन मण्डलाधिकारी जगदलपुर देवलाल दुग्गा ने बताया कि ग्रामीणों को अवैध कटाई एवं अतिकमण के विरुद्ध लगातार जागरूक किया जा रहा है। साथ ही टेक्टर चालकों से अपील की जाती है कि वनक्षेत्र में जुताई ना करें, ऐसा करते पाये जाने पर वाहनों को जप्त कर राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी।

किसानों को खाद

स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, बस्तर में 1600 स्कुल बंद होंगे, इसके विरोध में भी कांग्रेस चरणबद्ध आंबोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि खनिज का अवैध खनन व परिवहन हो रहा है और इसमें सीएम से लेकर मंत्री व नेता भी शामिल हैं। इस तरह बस्तर से लेकर सरगजा तक खनिज सम्पदा को लूटा जा रहा है। उन्होंने बोधघाट परियोजना को लेकर कहा कि जनता बोधघाट को लेकर क्या चाहती है, कांग्रेस जनता के साथ है। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष द्वय सुशील मौर्य व प्रेमशंकर शुक्ला, रेखचंद जैन,राजेश चौधरी, अजय बिसाई, लता निषाद सहित अन्य उपस्थित थे।

चरण पादुका के नाम से फिर होगा भ्रष्टाचार का खेल

बैज ने कहा कि तेन्द्रपत्ता संग्राहकों को लूटने फिर से नया दुकान खोलने जा रहीं है। 15 सालों तक संग्राहकों को चरण पांदुका बांटकर भ्रष्टाचार करते रहे, अब फिर से सत्ता में आते ही चरण पाढ्का बांटना शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि पैसा हित्रवाहियों के खाते में सीधा पहुंचे पर भाजपा सरकार के मंत्री व नेता भ्रष्टाचार करने योंजना बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासनकाल में पैसा सीधा हितग्राहियों के खाते में जा

रहा था। विवादित डॉक्टर दंपति ..

की वापसी गीदम हो गई है। इस बारे में गीदम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कर्मा का कहना है कि डॉ. ढ्रंपति की गीढम में दोबारा पोरिटंग का पुरजोर विरोध किया जाएगा। पिछली बार इतने विरोध और गंभीर शिकायतों के बावजूद डॉ देवेंद्र पताप सिंह को यहां से हटाया गया उन्हें दोबारा गीदम में पदस्थ करना और गीदम में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का प्रभार देने की सूचना मिलने से गीदम की जनता चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग की यह गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर से आंद्रोलन किया जाएगा।

गीदम में पोस्टिंग हुई, पर बीएमओ नहीं बनेंगेः सीएमएचओ रामटेकेः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय रामटेके ने बातचीत में स्वीकार किया कि डॉ .देवेंद्र प्रताप सिंह फिर से एमसीएच गीदम में स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर पदस्थ किए गए है। उनकी पत्नी डॉ शीतल सिंह चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर डीएमएफ मढ से नियक्ति की गई हैं। गींदम बीएमओ जैसी जिम्मेदारी डॉ देवेंद्र प्रताप सिंह को फिलहाल नहीं दी जा रही है।

मानस्न में आपदा से ...

को जिले में बहने वाली नदी इन्द्रावती, मार्कण्डी तथा नारंगी नदी में बाढ आने पर उससे लगे प्रभावित ग्रामों की जानकारी दिया गया है। साथ ही महादेव घाट पर एसडीआरएफ की टीम ने मॉक डिल किया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उपयोग होने वाले उपकरणों की जांच परख की। पिछले साल की आपदा से सबक लेते हुए एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। बाढ़ में 6 से अधिक लोगों की जान चली गयी थी, इस बार एसडीआरएफ ने संसाधनों को भी बढ़ाया है। एसडीआरएफ कमांडेट ने बताया कि रेस्क्य ऑपरेशन के लिए 5 मीटर बोट, 3 अंडर वाटर कैमरा 50 लॉडफ जैकेट. 10 सर्च लाइट सहित अन्य उपकरण हैं। अक्सर बारिश से इंद्रावती नदी के दोनों छोर पर मौजूद गांवों में बाद का खतरा बद जाता है। एसडीआरएफ को बेहद कम समय में रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देना पड़ता है। ऐसे में मानसून की बारिश से ठीक पहले सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। संयक्त कलेक्टर एआर राणा के ने बताया कि आपढा प्रबंधन शाखा ने जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया है।

एसडीआरएफ ने डूबते लोगों का किया रेस्क्यू: आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में चिकित्सा कॉम्बैट टीम गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर सेना जगदलपूर के जिला सेवानी एसके मार्बल ने बताया कि मॉक डिल के बौरान एसडीआरएफ की टीम ने महादेव घाट में डूबते लोगों का रेस्क्य किया। बाढ आपढा प्रबंधन के लिए वर्षामीपी यंत्रों की जांच कर चालू स्थिति में रखे जाने, मोटर बोट की उपलब्धता, लाइफ जैकेट, रस्सा, टॉर्च की व्यवस्था, प्रशिक्षित गोताखोर और तैराकों का पहले से अलर्ट में रखे गए हैं।

खबर संक्षेप

योग दिवस पर लोगों ने किया उत्साहपूर्वक योग



भानपरी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानपुरी में विश्व योग दिवस के उपलक्ष में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्षा वेदवती कश्यप, जनपद अध्यक्ष संतोष बघेल. जनप्रतिनिधि. ग्राम के गणमान्य नागरिक, प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयं सेवक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा किया

रेल्वे कॉलोनी में महिला ने लगारी फांसी

बचेली। स्थानीय रेल्वे मंदिर के सामने रेल्वे कॉलोनी में शिवानी निहाल नाम की 28 वर्ष की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका हैं। पुलिस ने लगभग 1.30 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिया भेज दिया हैं। रेल्वे कॉलोनी की रहने वाली महिला की 5 वर्षीय पुत्री ने तड़के लगभग 5.30 बजे नींद से उठकर अपनी मां के शव को लटकते हुए देखा और बच्ची की चीख निकल पडी। इसके बाद पडोसी वहां आ गये कुछ देर बाद महिला का पति और परिजन वहां आ गए। जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गयी। महिला के 3 बच्चे हैं जिसमें बड़ी बेटी 5 वर्ष, मझली बेटा 3.5 वर्ष एवं सबसे छोटा बेटा 1 वर्ष का हैं।महिला अपने पति से अलग रहकर अपने तीनों बच्चों के साथ जीवनयापन कर रही थीं।

शिशु मंदिर में मनाया गया विश्व योग दिवस



गीदम। विश्व योग दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय गीदम में आचार्य परिवार द्वारा योग कर योग दिवस मनाया गया। अभिभावक क्ला राम कडती. पतर्जाल योग संस्थान के द्वारा दीप प्रज्वलन व पुजा अर्चना कर योग प्रारंभ किया गया। विद्यालय के योग्य शिक्षक गोवर्धन ठाकुर ने योग का महत्व बताया एवं स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना, पर्यावरण सुरक्षा की चिंता करना आदि के बारे में भैया बहनों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत सभी को पेड लगाना चाहिए। विद्यालय के प्राचार्य विजय कुमार दुबे ने योग के महत्व को बताया। इस दौरान वज्रासन, पद्मासन, आलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, ताडासन. वक्षासन, तितली आसन आदि किया गया। योगासन में विद्यालय के भैया बहन व अभिभावक भी शामिल हुए।

मेंडका डोबरा मैदान में सैकड़ों लोगों ने किया योगाभ्यास

योग के घोष से गूंजा मां दंतेश्वरी का प्रांगण

हरिभूमि न्यूज 🕪 दंतेवाड़ा

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दंतेवाडा जिले में विभिन्न स्थानों पर सामृहिक योग प्रदर्शन किया गया, मुख्य कार्यक्रम मां दंतेश्वरी के पवित्र प्रांगण मेंडका डोबरा मैदान में आयोजित किया गया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित स्थानीय विधायक चैतराम अटामी के साथ हजारों के संख्या में योग साधकों ने योगाभ्यास किया। यहां जब एक हजार लोगों ने ऊँ के उद्घोष के साथ योग किया तो नजारा देखने

योग की आसान संक्रियाओं को करने के साथ ही लोगों ने योग के महत्व

 तनावपूर्ण जीवनशैली में योग ही ऐसा माध्यम है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधता है

भी जाना। इस दौरान योग गुरु लोगों के योग के साथ ही यौगिक साधनाओं के महत्व के बारे में बता रहे थे। यह योग का सम्मान था. भारत की प्राचीन समद्व संस्कृति का सम्मान था। यह खास अवसर इतना गौरवशाली था कि योग करने वाले अपने जड़ों से जुड़ा महसूस कर रहे थे। इस मौके पर मख्य अतिथि विधायक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तीरथगढ़ जलप्रपात के तट पर लोगों

हरिभूमि न्यूज 🕪 दरभा

तीरथगढ़ जल प्रपात के पावन तट

पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के

अवसर पर भव्य सामूहिक

योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन

शनिवार को किया गया। इस

अवसर पर पूर्व विधायक बैदुराम कश्यप भी सहभागिता करते हुए

योगाभ्यास में भाग लिया और

कार्यक्रम को सफल बनाने में

पूर्व विधायक ने इस अवसर पर

कहा कि तीरथगढ़ की प्राकृतिक

छटा के बीच योगाभ्यास करना एक

अत्यंत सुखद और आत्मिक

अनुभव रहा। योग न केवल हमारे

शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि

मानसिक शांति और आत्मिक

उन्नति का भी सशक्त माध्यम है।

यह तनाव को कम करता है और

जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का

संचार करता है। इसके साथ ही

सक्रिय योगदान दिया।

सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमुल्य धरोहर है, जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की एक संपूर्ण जीवनशैली है। योग नियमित रूप से करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है. बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे केवल एक दिन की गतिविधि न मानें, बल्कि इसे निरंतर अपनाकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। उन्होंने

ने किया सामूहिक योगाभ्यास

कश्यप पीडी ने अपने उदबोधन में

कहा कि योग को यदि हम अपनी

दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग

बना लें, तो एक स्वस्थ, सुखी और

संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते

हैं। पीडी ने अंत में सभी को

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की

श्भकामनाएं देते हुए कहा कि इस

प्रकार के आयोजन समाज में

स्वास्थ्य और आत्मिक चेतना की

भावना को जागृत करते हैं। इस

सामृहिक योग कार्यक्रम पर मंडल

यह भी कहा कि योग के माध्यम से हम न केवल स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हए कहा कि आज संपूर्ण विश्व में योग कार्यक्रमों का आयोजन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। यह दिन केवल एक आयोजन भर नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और जीवनशैली की ओर लौटने की प्रेरणा देता है।

कलेक्टर ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ

स्वास्थ्य का संतुलन भी एक स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवनशैली में योग ही एक ऐसा माध्यम है, जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बाँधता है। योग केवल व्यायाम या आसनों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक समग्र जीवन दर्शन है, जो अनुशासन, संयम और संतुलन सिखाता है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि योग को केवल एक दिन के कार्यक्रम या प्रदर्शन के रूप में न अपनाएं, बल्कि इसे प्रतिदिन के जीवन में एक नियमित अभ्यास के रूप में

इस अवसर पर जिला पंचायत

अध्यक्ष पायल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक गौरव राय, जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, डीएफओ सागर जाधव, अपर कलेक्टर राजेश पात्रे सहित अन्य जनप्रतिनिधि पंचायत पदाधिकारी और अधिकारी-कर्मचारी एवं बडी संख्या में

इस दौरान योग प्रशिक्षक डॉक्टर भारती रजक, डॉ. संतोष कुमार बर्मन, मंज सिगची ने प्रार्थना, शिथिलीकरण अभ्यास, ग्रीवा चालन, संचालन, कटि चालन, संचालन, पादहस्तासन, अर्ध त्रिकोणासन, भद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन उष्ट्रासन, शशकासन, मंडुकासन, वक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतुबंधासन उत्तानपादासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, शवासन, कपालभाति, नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया। इसके साथ ही योगाभ्यास के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने मेंढका ढोबरा परिसर में एक वृक्ष मां के अभियान के तहत पौधा रोपण किया।

एसबीआई फाउंडेशन व परिवर्तन समाज

विकास समिति ने योग दिवस मनाया



हरिभूमि न्यूज 🕪 बस्तर

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूर्व माध्यमिक शाला कूड़कानार में योग दिवस पर छात्रों ने योग आसनों का अभ्यास किया, जिसमे मुख्य रूप से 101 बच्चों ने भाग लिया और योग ट्रेनर राहल लोहाना ने उन्हें योग के महत्व के बारे में जानकारी दी।

योग व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ रखता हैं। यह बच्चों को द्रण रहना , धैर्य रहना और अपने लक्ष्यों की और काम करना सिखाता हैं। यह करुणा मनन उदारता ध्यान शक्ति और लचीलेपन का अभ्यास करने के लिए दिन चर्या पूरी तरह से योग पर केंद्रित की। दिन की शुरुवात प्रार्थना से हुई और योग से संबंधित दिन के शब्द और दिन के विचार के साथ जारी रही। विद्यार्थियों ने योग और आज की विश्व स्तिथि में इसको प्रभावशीलता के बारे में बात की।

इस दौरान उपस्थित सरपंच सामो कश्यप, हेड मास्टर धीरेंद्र यादव, शिक्षिका आभा प्रीति इक्का , सुश्री शिल्पा शार्वा, ममता ठाकुर, फूल सिंह यादव, योग ट्रेनर राहुल लोहाना, ऋषब वर्मा, जिला समन्वयन सुरज पटनायक, डॉ. विभाष ओझा, डॉक्टरे हिरमा मांडवी, फार्मासिस्ट रवींद्र पोयाम, लैब टेक्नीशियन पल्लवी पांडे , स्टाफ नर्स पूर्वा खपर्डे, पायलट

गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

विश्व योग दिवस पर भूरसंडी के बच्चों



भोण्ड। बस्तर विकासखण्ड के माध्यमिक शाला भूरसंडी एवं प्राथमिक शाला महुगुड़ा के स्कूली बच्चों को 11 वें विश्व योग दिवस के अवसर पर शिक्षकों के द्वारा योग योग करवाया गया। साथ ही विभिन्न योगासन से शरीर को होने वाले लाभ की भी जानकारी दी गई। नियमित रूप से योग करने से शरीर भी निरोग रहता है। इस दौरान पालक भी इसकी जानकारी प्राप्त करते देखे गए। इस अवसर पर प्रधान अध्यापक शैलेन्द्र कुमार तिवारी, रश्मि नेताम, सुश्री हेमलता कश्यप, भूतेश्वर प्रसाद पाण्डेय, लोकेश रावते प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक चमरू राम बघेल, सतीश श्रीवास्तव, पीलू राम मौजूद थे।

पांच दिवसीय योग शिविर का हुआ



बस्तर। संचालक आयुष रायपुर छत्तीसगढ़ एवं जिला आयुष अधिकारी डॉ. मोहनिश साह के मार्गदर्शन में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में पांच दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चपका में किया गया। जिसका उदघाटन चपका सरपंच पीली कश्यप के द्वारा तथा योग शिविर का समापन जिला पंचायत सदस्य शकुंतला कश्यप की उपस्थिति में विश्व योग दिवस के अवसर पर विभिन्न योगाभ्यास कर समापन किया गया। इस अवसर पर सुंदरी मौर्य, लक्ष्मी यादव, प्राचार्य बीआर कच्छ, जीसी प्रधान, आरएस तिवारी एमएस सेठिया, प्रेमनाथ कश्यप, सीआर साहू, एमआर जैन, पदमा क्षत्रिय, एसमा सेठिया, गीता नेताम व शिविर प्रभारी डॉ. विनोद सिंह, योग शिक्षक विजय देवांगन, घनश्याम सीदार फार्मासिस्ट एवं अन्य विद्यालय स्टॉप एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

योग शरीर को रोगों से लडने की शक्ति प्रदान करता है: मोहित



जगढलपर। ११ वां अन्तर्राष्टीय योग दिवस का आयोजन 22 बटालियन सीआरपीएफ मिंगाचल कैम्प के प्रांगण में किया गया। जिसमें बटालियन के अधिकारियों मोहित कपूर कमाण्डेंट, पंकज कुमार द्वितीय कमान अधिकारी एवं निरंजन कुमार सिंह उप. कमाण्डेंट, मौ. नसीर सीनियर चिकित्सा अधिकारी, विजय आनन्द सहायक कमाण्डेंट तथा अधिनस्थ अधिकारियों एवं बल के जवाने ने बढ-चढ कर हिस्सा लिया। योग अभ्यास के दौरान विभिन्न प्रकार के आसन एवं प्राणायाम कराये गये। मख्य अतिथि मोहित कपर कमाण्डेंट द्वारा योग के महत्व को समझाया गया एवं दैनिक जीवन में योग के फायदों के बारे में प्रेरित किया। यह भी बताया गया है कि योग हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास को मजबूत बनाता है साथ ही शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान

डीएव्ही पॉलिटेविनक ने मनाया योग दिवस



गीढम। एजकेशन सिटी जावंगा में स्थित एनएमडीसी डीएव्ही पॉलिटेक्निक दंतेवाड़ा महाविद्यालय में योग दिवस आयोजित किया गया। भारत सरकार आयुष मंत्रालय एवं छत्तीसगढ स्वामी विवेकानंढ तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के दिशानिर्देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः हुई जिसमे महाविद्यालय के प्राचार्य, समस्त स्टाफ तथा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मुकेश ठाकुर ने बताया कि महाविद्यालय में आयोजित योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन वाले योग प्रोटोकॉल का सभी ने अभ्यास किया। इस वर्ष सभी उपस्थित लोगों ने यह संकल्प भी किया कि वे सभी नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम को अपने जीवन में स्थान देंगे। योग अभ्यास में प्रथम स्टेचिंग अभ्यास कराया गया जिसमें सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों को आसन के लिए तैयार करना उद्देश्य था। इसके बाद आसनों का अभ्यास किया गया। ताड़ासन, शलभ आसन मकर आसन, भुजंगांसन इत्यादि का अभ्यास कर्मागत कराया गया। अंत में पाणायाम तथा ध्यान भी कराया गया। सभी उपस्थित लोगो ने योग किया तथा छात्र विशेष रूप से योग अभ्यास करके प्रसन्न हुए।

दरभा जनपद अध्यक्ष मानकदई अध्यक्ष देवी प्रसाद बेंजाम, पूर्व व्यक्तियों ने बढ़-चढ़कर भाग उपकरण भी प्रदान करता हैं। जिला कश्यप, जनपद उपाध्यक्ष हरिप्रसाद जनपद उपाध्यक्ष अनंत कश्यप. समन्वयक सुरज पटनायक ने सुबह की अशोक बघेल की उपस्थिति रही।

प्रशासनिक

फूलसिंह सेठिया, मुन्नू सिंह दुर्जन

कश्यप एवं जनपद सीईओ बीरेंद्र

बहादुर, बीईओ जगदीश पात्र,

एबीओ शेख तौफीक खान,

मंडल सयोजक महेन्द्र बघेल,

निलाप सिंह ठाकुर, महेन्द्र नायक,

प्रभु लाल यादव, प्रकाश मोरे एवं

क्षेत्रीय नागरिकों, युवाओं, योग

प्रशिक्षकों, संकल्प ठाकर, प्रभुलाल

अधिकारियों और अन्य गणमान्य

सहित

बीआरसी समलू राम

हरिभूमि न्यूज 🕪 बीजापुर

ग्यारहवे अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आयोजित जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम एजकेशन सिटी के नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ।

कार्यक्रम के मख्य अतिथि कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने शारीरिक और मानसिक विकारों को दर करने एवं स्वस्थ शरीर के लिए योग को अमृत के समान बताया। विधायक ने कहा कि अपने व्यक्तिगत दिनचर्या के बीच योगाभ्यास के लिए समय जरूर निकाले योग हमे शारीरिक मानसिक थकावट एवं डिप्रेशन से दूर रखने के साथ ही हमे हमारे दिनचर्या में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। भागदौड भरी जिंदगी में योगाभ्यास



तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरणपादका वितरण

मुख्यअतिथि आशाराम नेताम, क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी, नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी, कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव एवं डीएफओं रंगानाथा रामाकृष्णा वाय के द्वारा तेन्द्रपत्ता संग्राहक धनोरा समिति अंतर्गत मांझीगुड़ा एवं संतोषपुर समिति के तेन्दूपता संग्राहकों को चरणपादका का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंबनवार. अपर कलेक्टर भपेन्ढ अग्रवाल. एसडीएम बीजापर जागेश्वर कौशल, उप संचालक समाज कल्योण कमलेश्वर पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं जनसमान्य उपस्थित थे।

हमे शारीरिक और मानसिक रूप से स्फुर्ति प्रदान करता है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि आशाराम नेताम एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी ने एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत वक्षारोपण भी किया।

विधायक नेताम ने कहा कि जिस तरह एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर योगाभ्यास किया जा रहा है। वैसे ही पथ्वी और स्वास्थ्य को बचाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंशानसार महत्वाकांक्षी योजना एक पेड मां के नाम पर वृक्षारोपण कर उनका देखभाल कर हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं, पृथ्वी का पर्यावरण संतुलित होने से मानवजीवन का स्वास्थ्य भी संतुलित रहेगा इसलिए हम सभी को एक पेड मां के नाम से अवश्य लगाना चाहिए और उनका समृचित देखभाग करना चाहिए। योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने माननीय प्रधानमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन कर कहा कि एक पथ्वी

एक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य नही बल्कि मानवता, पर्यावरण और वैश्विक कल्याण की भावना को भी प्रकट करती है योग हमारी संस्कृति, विरासत का अभिन्न हिस्सा है। जो शरीर और मन को संतुलित कर शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त करती है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विशाल जनसमदाय ने सामहिक रूप से योगाभ्यास किया। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा योग के विभिन्न आसन, ग्रीवा चालन, कटि चालन, घुटना चालन, ताडासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन. त्रिकोणासन्न. भूजंगासन,

कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, प्रणव ध्यान सहित विभिन्न आसन का अभ्यास कराया गया एवं उनके लाभ को भी बताया गया।

तहसील - गीदम


एनएमडीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया अलोम, विलोम और सूर्य नमस्कार

हरिभूमि न्यूज 🕪 किरंदुल

भारत सरकार के खनन मंत्रालय के निर्देश अनसार एनएमडीसी लिमिटेड किरंदल लोह अयस्क परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक पथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के तहत संजीव शाही मुख्य महाप्रबंधक के निर्देश में योग से योग्य 11वें अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर परियोजना विद्यालय में योगाभ्यास किया गया।

किरंदूल परियोजना में योग से योग्य कार्यक्रम किया गया

संजीव साही मुख्य महाप्रबंधक एवं मंजु साही अध्यक्षा प्रेरणा महिला समिति ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम की शुरूआत की। केएल नागवेणी उप महाप्रबंधक (कार्मिक) ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। योग दिवस के अवसर पर साही ने कहा कि योग एक शारीरिक क्रिया है, यह हमारी



कार्यक्रम में एसके कोचर, महाप्रबंधक खनन खान प्रबंधक, पीबी एंटोनी



सिंह, सचिव एमएमडब्ल्यू यूनियन, संजय

कुमार सहा.महाप्रबंधक सुरक्षा, शैलेन्द्र

विभागाध्क्ष, अधिकारी- कर्मचारी, छात्र-

छात्राएं व आमजन उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन अभिजीत मिश्रा, वरि.प्रबंधक कार्मिक और दिनेश साह ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन मो.तनवीर जावेद, उप महाप्रबंधक कार्मिक ने किया।

पाटील सहा.महाप्रबंधक राजभाषा, प्रमोद कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्मिक सोनी सहा.महाप्रबंधक कार्मिक सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गीदम, जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) रा.प्र. क्र. - 202506161800012 अ-2 / 2024-25 ग्राम - कासोली, प.ह.नं. - 10,

<u>उद्घोषणा</u>

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है. कि आवेदक श्री शंकर बघेल पिता श्री रामसिंह बघेल निवासी कासोली तहसील गीटम जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाडा (छ.ग.) मोबाईल नं. 6263538089 के द्वारा छ.ग भ-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा 172 के तहत अपने हक़ त्याग से प्राप्त भिम ग्राम - कासोली प.ह.नं. 10 रा.नि.मं. गीदम तहसील- गीदम में स्थित भिम खसरा नं 938/2 रकबा 0.0400 हे. भूमि को कृषि भमि प्रयोजन से व्यवसायिक प्रयोजनाथ व्यपवर्तन कराना चाहते है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उक्त भ खण्ड के व्यपवर्तन से आपत्ति हो तो इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04/07/2025 समय 11.00 बजे अपरान्ह उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है ।

यह उदघोषणा मेरे हस्ताक्षर एवं पदमद से आज दिनांक 19/06/2025 को जारी किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

<u>// कुल नाम बदलने विलेख //</u>

इस विलेख द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता बकील ाद गौड़ पिता बुजलाल गौड़ निवासी पुलिस लाई रली, तहसील गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दुन्तेवाड़ .ग. शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि . अपने अपने बच्चे और अपनी दूरंतर संतान के लि तथा अपनी ओर से मेरा पूर्व का नाम वकील प्रसा गौड़ पिता ब्रिज लाल गौड़ केवल उपयोग को पूर्वत गौड़ पिता ब्रिज लाल गौड़ केवल उपयोग को पूर्वत त्याग करता हूँ छोड़ता हूँ लथा उनका परित्याग कर हूँ। उसके स्थाग पर इसकी विश्व को तारीब से मेर् नाम बकीला प्रसाद गौड़ पिता बृजलाल गौड़ के अंगीकार करता हूँ जिसके लिए तथा मेरे और मेरे इंतर संतान के ह्या मुझे अंगीकार किये कुल नाम बकीला प्रसाद गौड़ पिता बृजलाल गौड़ से हो पुकार जाये व जाना जाये और पहचाना जाये न कि मेरे पुन नाम वकील प्रसाद गौड़ पिता ब्रिज लाल गौड़ के नाम से। 2. अपने इस विलेख को प्रकट करने वे प्रयोजनार्थ घोषणा करता हूँ कि में इसके परचात समस्त समयों पर अभिलेखों विलेखों में और समस्त कार्यवाहियों तथा संक्यवहारों से चाहे वे प्रायवेल व्यवहारों हो या सरकारी हो, और समस्त अससरों प मेरे पूर्व का नाम वकील प्रसाद गौड़ पिता ब्रिज लाल लाल ारे पूर्व का नाम वकील प्रसाद गौड़ पिता ब्रिज ला गौड़ के कल नाम के स्थान पर उसकी जगह बकी

.... की उपस्थि नें हस्ताक्षर किये गये मुद्रा किया गया व तथा परिद

बकीला प्रसाद गौड़ पिता बृजलाल गौड़ निवासी पुलिस लाईन कारली, तहसील गीदम जिला दन्तेवाड़ा

शपथ पत्र मै नेलवीन दास पिता हेरीसन दास

निवासी परपा नाका गीदम रोड, जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. का निवासी हूँ जो कि शपथ पुर्वक निम्न कथन व्यक्त करता हँ कि :-1. यह कि मै उपरोक्त नाम व पते का स्थाई निवासी हँ।

2. यह कि मेरे नाम से डायविंग लाईसेंस प्राप्त है जिसका क्रमांक सी.जी. 17 20040010169 है। उक्त ड्रायविंग लाईसेंस में मेरे पिता का नाम अंग्रेजी भाषा HARISON DAS में दर्ज किया गया है जो कि स्पेलिंग मिस्टेक है। 3. यह कि मेरे आधार कार्ड क्रमांक 8146 7727 9705 में तथा मेरे पहचान पत्र में मेरे पिता का नाम अंग्रेजी भाषा में HARRISON DAS दर्ज है जो कि सही नाम है।

 यह कि मैं अपने उक्त डायविंग लाईसेंस का नवीनीकरण करवान चाहता हँ जिसमें मेरे पिता का सही नाम HARRÎSON DAS व मेरा पता परपा नाका गीदम रोड, जगदलप् जिला बस्तर दर्ज हो उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में यह शपथ पत्र प्रस्तत है।

शपथकर्ता

खबर संक्षेप

स्वास्थ्य विभाग के आधिकारियों ने किया योग



जगदलपुर। विश्व योग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के मख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय बसाक, डीपीएम डॉ. रीना लक्ष्मी. जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सी मैत्री, डीएएम नायर, जिला सलाहकार हनी गदलीब, जिला कार्यालय से लेखाअधिकारी पीके ढमधर. पाथमिक स्वास्थ्य केंढ आसना के पभारी धर्मेंढ ढेवांगन एमपीडब्ल्यू प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमती माधुरी मित्रा और प्रभारी जिला मीडिया अधिकारी शकील खान ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी ने पतंजलि योग पीठ के प्रतिनिधि डॉ मनोज पाणिग्राही और उनके साथियों द्वारा करवाए जा रहे हैं, योगाभ्यास मे

डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में योग दिवस मना



जगदलपुर। डीएवी मुख्यमंत्री पिंटलक स्कल नकटी सेमरा में अंतर्राष्टीय योग दिवस शनिवार को बड़ी ध्रमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवस्य पर विद्यालरा पांगण में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थी शिक्षकगण ने बढ-चढकर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरूआत प्रार्थना सभा से हुई, जिसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेश कुमार ने योग दिवस का महत्व बताते हुए कहा कि योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि यह मन और आत्मा को भी शांति पढान करता है। इसके पश्चात प्रशिक्षित योग शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न योगासन पाणायाम एवं ध्यान कियाएं करवाई गई, छात्र-छात्राओं ने ताडासन त्रिकोणासन्, वजासन भ्रामरी प्राणायान आदि का अभ्यास किया। इस अवसर पर कई छात्रों ने भाषण, कविता और पोस्टर के माध्यम से योग का संदेश भी ढिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित पाचार्य और शिक्षक गणों एवं विद्यार्थियों ने नियमित रूप से योग करने और स्वस्थ जीवन शैली

ग्रामीणों ने एकत्र किए 300 किलो प्लास्टिक और कचरा

बस्तर जिले के नेतानार क्षेत्र स्थित उयधीर पर्यटन स्थल बिजलीपारा में आज स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल की गई। उयधीर पर्यटन समिति के अध्यक्ष फूलसिंह नाग के नेतृत्व में बिजलीपारा और गेहूंपदर के आस-पास स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में समिति के सदस्य, स्थानीय ग्रामीणों और दोनों गांवों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान के दौरान पर्यटन स्थल से लेकर गांव की गलियों तक सफाई की गई। विशेष रूप से प्लास्टिक कचरे पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें लगभग 60 किलो प्लास्टिक बोतलें एकत्र





प्रयास की सराहना

उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और जैवविविधता की रक्षा करना भी है। अगर हम अपने पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखें, तो यह क्षेत्र आगे चलकर एक बडा पर्यटन केंद्र बन सकता है। समिति ने भविष्य में प्रत्येक माह ऐसे सफाई अभियान चलाने की योजना भी बनाई है। ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने भी इस प्रयास की सराहना की और इसे नियमित करने का संकल्प लिया।

अनसार जब से उयधीर पर्यटन स्थल की शरूआत हुई है, तब से लगातार पर्यटकों को यह संदेश दिया जा रहा है कि वे अपने पिकनिक स्थलों पर कचरा इधर-उधर न फेंकें और डस्टबिन का उपयोग करें। समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करते रहे हैं कि कोई भी पर्यटक अपने पीछे प्लास्टिक या अन्य कचरा न छोडे। इस जागरूकता का असर भी दिखा अभियान के अंतर्गत जब पुराना और हालिया जमा कचरा एकत्र किया गया, तो कुल मिलाकर 260 से 300 किलो प्लास्टिक सामग्री पाई गई। फुलसिंह नाग ने बताया कि यह संपूर्ण कचरा अब जिला पंचायत के स्वच्छता अभियान विभाग को सौंपा जाएगा, जिससे उचित निस्तारण हो सके।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आत्मसमर्पित माओवादियों ने सामुहिक

योगाभ्यास हरिभूमि न्यूज 🕪 सुकमा

11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज जिला स्तरीय सामहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में नगरवासियों ने एक साथ योगाभ्यास किया। ज्ञानोदय आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कुम्हाररास, सुकमा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर सामृहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिए तथा विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास किया। इस दौरान महिला आयोग की सदस्य सुश्री दीपिका सोरी, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण, डीएफओ अक्षय भोंसले कार्यक्रम में भाग लेकर योगासन एवं प्राणायाम की विभिन्न मुद्राओं का एक साथ सामहिक अभ्यास किया।

सांसद कश्यप ने कहा कि योग एवं अध्यात्म की भारत की प्राचीन परम्परा को सम्पूर्ण विश्व ने अपनाया है। इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से आज पूरा विश्व योग दिवस में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश वाचन

योग से शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ती है : कश्यप



विश्व योग की महत्ता को समझते हुए 21 जून को योग दिवस मनाता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करता है। योग व्यक्ति को न केवल निरोग बनाता है. बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ सरकार योग को जन-जन तक पहुँचाने निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसे हम दिनचर्या में शामिल करें। योग की महत्ता को पूरे विश्व में स्वीकार

किया गया है। उन्होंने बताया कि 193 देशों के मौजूदगी में 177 देशों ने योग दिवस मनाए जाने समर्थन किया। उन्होंने आगे कहा कि योग से शारीरिक क्षमता बढ़ती है तथा मानसिक विकार दूर होता है और स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने नक्सल मुक्त भारत अभियान के बारे में कहा कि हम मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सलमुक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इस दौरान सांसद ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने तथा नशा मुक्त भारत का निर्माण करने का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम में महिला



दिवस की उपयोगिता तथा महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि अरुण सिंह भदौरिया, जिला पंचायत सदस्य हंगाराम मरकाम, विश्वराज सिंह चौहान, सोयम मुका, दिलीप पेदी, लीलाधर राठी, योग शिक्षक वर्षा तिवारी, संयुक्त कलेक्टर सूरज कश्यप, योग दिवस के नोडल अधिकारी उपसंचालक समाजकल्याण संजय पाण्डे, पत्रकार गण और बडी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

पौधरोपण

ज्ञानोदय विद्यालय प्रांगण में आज सुबह सात बजे सभी उपस्थित अतिथियों के साथ योग प्रशिक्षक रामनारायण मिश्र के द्वारा बैठकर, खड़े होकर तथा लेटकर किए जाने वाले सूक्ष्म योग, अर्द्धचक्रासन शशकासनं, वज्रासन त्रिकोणासन् उत्तानपाढ आसन अर्धकटिचक्रासन, उष्ट्रासन अर्धउष्ट्रासन, मत्स्यासन, मार्जारासन सहित विभिन्न प्रकार योग मुद्रा का अभ्यास कराया गया. साथ ही कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी जैसे विभिन्न प्राणायामों का सामृहिक अभ्यास कराया गया। कार्यकम में आत्मसमर्पित नक्सिलयों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। योग कार्यक्रम के पश्चात सांसद ने स्कूल प्रांगण में पौधरोपण भी किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग



जगदलपुर। अंतराष्ट्रीय योग दिवस पर शनिवार सुबह को शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ द्वारा अंतर्राष्टीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन अकादमी भवन शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद की पूजा-अर्चना व दीप प्रज्वलित कुलसचिव शहीद डॉ राजेश लालवानी के द्वारा शुभारंभ किया गया। डॉ .सजीवन कुमार कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉ सुकृता तिर्की विभागाध्यक्ष,के आर ठाकर कुलसचिव,मेश्राम लिपिक की उपस्थिति में योग प्रारंभ

डॉ. सजीवन कुमार ने स्वागत उद्बोधन करते हुए सभी आए हुए अधिकारी, प्राध्यापक कर्मचारी विद्यार्थीयों को स्वस्थ जीवन के लिए योग अनिवार्य बताया। दैनिक जीवन में प्रतिदिन योग करना चाहिए इसके फायदे स्वस्थ शरीर ,स्वस्थ मन और सुंदर कार्य होता है। प्रेमजीत निराला योग प्रशिक्षक द्वारा योग के नियम कपालभारती, योगासन,सूर्य नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय बस्तर के डॉ भुनेश्वर लाल साहू, डॉ नीरज कुमार वर्मा, डॉ सिया लाल नाग,डॉ कुश नायक,डॉ सोनवानी, डॉ मनीषा देवी, डॉ श्रद्धा डोंगरे, देवेंद्र कुमार अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थियों की उपस्थिति में हुआ।

योग फॉर वन अर्थ,वन हेल्थ के दृढ़ संकल्प के साथ योग्याभ्यास

विश्व योग दिवस पर 80 वीं वाहिनी केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल, मुख्यालय जगदलपुर के प्रांगण में हरजिन्दर सिंह, उप महानिरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रेंज जगदलपुर के निर्देशन में 80 वी

 80 वी वाहिनी सीआरपीएफ बल ने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

वाहिनी के कमाण्डेन्ट जितेन्द्र कुमार के नेतृत्व में 11 वें अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग फॉर वन अर्थ,वन हेल्थ के दढ संकल्प के साथ योग कार्यकम का आयोजन किया गया। इस योग कार्यकम में 80 वीं वाहिनी एवं रेंज जगदलपुर के सभी अधिकारी एवं जवानो ने भाग लिया।

कमांडेंड जितेन्द्र कुमार ने मानव जीवन में योग के महत्व को बताने के साथ-साथ यह भी अवगत कराया कि एक पथ्वी एक स्वास्थ्य का अर्थ है कि अगर हम खुद स्वस्थ रहेगें तो हमारा समाज और पर्यावरण भी उसी उर्जा को महसुस करेगा। जैसे सोच एक स्वस्थ्य जीवनशैली



जिसमें शरीर और मन को एकरूपता में ला कर अपने आपको शान्ति और रिक्तता से जोड़ने का एक तरीका है। योग नियमित रूप से करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है जो स्वस्थ जीवनशैली तथा बेहतर जीवन जीने की दिनचर्या में सहायता करता है। योग के प्रति जागरूक करने एवं जीवन में योग का महत्व समझाने के उदेश्य से 11वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर रेंज जगदलपुर एवं इस वाहिनी के अधिकारी दिनेश कुमार सिंह,पुरुषोत्तम कुमार, दितीय कमान अधिकारी,डॉ उत्पल गगोई, मुख्य अधिकारी,मकसूद चिकित्सा आलम,अमरजीत गुप्ता, उप कमाण्डेंट,ओम कुमार गुप्ता सहायक कमाण्डेंट,वेंकट विकास अधिकारी,विनय कुमार,एंटोनी एम सहायक कमाण्डेंट, अधिनस्थ अधिकारी एवं समस्थ जवानों ने योग अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त वाहिनी के अन्य कैम्प नेतानार. सभी कोलेंगनाला, कोलेंग, चांदामेटा, भडरीमहु एवं मसगांव में भी अधिकारियों एवं जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।



सैनिकों ने योगाभ्यास कर अनुशासन, मानसिक शांति एवं शारीरिक फिटनेस का दिया संदेश

हरिभूमि न्यूज 🕪 जगदलपुर

कमांडेंट-201 कोबरा अमित चौधरी तथा कमांडेंट-204 कोबरा संतोष कुमार मल्ल के मार्गदर्शन में कोबरा

 कोबरा बटालियन में योग दिवस का भव्य आयोजन

अधिकारियों व जवानो ने संयक्त रूप से आज कोबरा काम्प्लेक्स करनपुर में 11 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह एवं लगन के साथ मनाया। एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग को ध्यान में रखते हुए कोबरा बटालियन ने अति-नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ में योग सत्रों का आयोजन किया जिसमे सैकड़ो की संख्या में सैनिको ने योगाभ्यास कर अनुशासन, मानसिक शांति एवं शारीरिक फिटनेस का संदेश दिया।

इस अवसर पर कमांडेंट ने अपने संदेश में कहा योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतीक है बल्कि यह मानसिक सशक्तिकरण का माध्यम भी है। यह हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जिसे कोबरा बटालियन गर्व के साथ अपनाती है। इस अवसर पर बल के योग प्रशिक्षकों द्वारा सामहिक रूप से योगाभ्यास कराया गया, जिसमें जवानों को तनाव प्रबंधन, श्वसन तकनीकों एवं ध्यान विधियों के बारे में जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त कोबरा बटालियन योग को अपने दैनिक शारीरिक प्रशिक्षण में सम्मिलित कर अपने जवानों की जीवनशैली में संतुलन, अनुशासन एवं आंतरिक शांति लाने के उद्देश्य से नियमित रूप से योग का अभ्यास कराती है।

अभाव में लोगों ने भुला दिया था : योगेंद्र हरिभूमि न्यूज 🕪 जगदलपुर

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय 'पावन धाम' वृन्दावन कॉलोनी में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी, एक स्वाथ्य के लिए योग' कार्यक्रम

प्रजापति ब्रह्माकुमारी इश्वरीय विश्व विद्यालय में मना योग दिवस

आयोजित किया गया।

इस अवसर पर योगा टीचर योगेन्द्र देवांगन ने कहा योग की शुरूआत हजारों वर्ष पहले हो चुकी थी किन्तु समय के अभाव के साथ हमने योग को भुला दिया है। योग का अर्थ होता है तन का मन के साथ जुडना और मन का परमात्मा से जुड़ना। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और साथ ही साथ पथ्वी भी स्वस्थ रहे। आसन प्रणायाम के साथ योगाभ्यास भी कराया और योग के फायदे के बारे में बताया। इस अवसर पर योगा टीचर रमा बहन एवं शीला बहन ने भी अंतर्राष्टीय योग दिवस प्रकाश पर

संचालिका ब्रह्माकुमारी मंजूषा दीदी ने कहा वर्तमान समय भागम



भाग की जिन्दगी में सबका जीवन तनावग्रस्त बन गया है, और अनेक उलझनों में उलझता जा रहा है, नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, परिणाम स्वरूप अनेकानेक भी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग को जीवन में शामिल करना अति आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए प्राणायाम आसन और व्यायाम आदि करने की आवश्यकता है। तन को स्वस्थ बनाने के साथ-साथ हमें मन को भी स्वस्थ बनाना अत्यंत आवश्यक है। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा परमपिता से जब हम कनेक्ट होते हैं तो आत्मा सशक्त बनती है और हमारे विचार सकारात्मक बनते

योग की शुरुआत हजारों साल से, समय के

हैं। यदि मन हमरा सकारात्मक होगा तो हम प्रकृति को सुन्दर बना सकते हैं हरी भरी दुनिया बना सकते हैं और इस विश्व में स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं। दैनिक दिनचर्या में हमे राजयोग मेडिटेशन और योग को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। इससे स्वयं का जीवन सुखमय बनेगा, साथ-साथ परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व ही स्वस्थ और सुखमय बन जायेगा। आपने स्वस्थ जीवन के लिए सभी भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शभकामनायें दी। आपने ओम की मधुर ध्वनि से सभी को योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर संस्था से जुडे हुए भाई बहनों ने योगाभ्यास

धरमपुरा में निमार्णाधीन आडिटोरियम शीघ्र होगा पूर्ण : किरण देव

हरिभूमि न्यूज 🕪 जगदलपुर

शहर के धरमपुरा क्षेत्र में निमार्णाधीन आडिटोरियम का काम तेजी से पूर्ण हो रहा है। निर्माण कार्य को गति देने शासन से 9 करोड रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त हुई है। विधायक किरण देव ने

 बस्तर अंचल के रंगकर्मियों को जल्दी मिलेगी बडी सौगात

निमाणार्धीन आडिटोरियम के लिए 9 करोड रुपए की स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी को प्रति धन्यवाद व आभार व्यक्त किया है। किरण देव ने कहा कि बस्तरवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग शहर में आधुनिक आडिटोरियम की रही थी। जिस पर प्रदेश के मुखिया को इस हुए लगातार विकास कार्य कर रहे हैं।

विषय पर अवगत कराया गया था। बस्तरवासियों के मांग के अनुरूप धरमपुरा में आडिटोरियम के लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकति प्राप्त

हुई है। जिससे अब आडिटोरियम यथा शीघ्र आकार पायेगा। बस्तर के रंगकर्मियों के द्वारा निमाणाधीन ऑडिटोरियम के जल्द निर्माण की

मांग रखी। विधायक किरण देव ने मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की मांग रखी थी जिस पर वित्त विभाग से 9 करोड रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। विधायक मूलभूत सुविधाओं को जनता के मांग के अनुरूप पूरा करते

हरिभूमि न्यूज 🕪 जगदलपुर रायपुर से सुकमा आ रही बस में यात्री के साथ

बस के चालक-परिचालक द्वारा मारपीट करने

एवं उसके सिर पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर लहुलुहान करने संवेदनशील घटना को संज्ञान में लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक संतोष बाफना ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जगदलपुर से रायपुर मार्ग पर संचालित होने वाली बसों में

यात्रियों के साथ आये दिन होने घटना की वाले दुर्व्यवहार व हाथापाई की घटनाओं को लेकर शिकायत की है। उन्होंने शिकायती पत्र में कहा है कि आदिवासी अंचल बस्तर से रायपर की

ओर आने-जाने वाली इन यात्री बसों में अप्रिय

घटनाओं की मुख्य वजह जगदलपुर से रायपुर

तक 300 कि.मी. के लगभग 7 से 8 घण्टे के लम्बे सफर के दौरान निजी बस के चालक-परिचालकों द्वारा खासतौर पर दिन के समय यात्रियों के खाने-पीने एवं शौच इत्यादि के लिए यात्रियों द्वारा निवेदन करने के

बावजूद उनसे बस लेट हो जाने की बात कहकर बसों को रोका तक नहीं जाता और अधिक सवारी बैठाने की प्रतिर्स्पधात्मक दौड़ में लगातार 8 घण्टे महिलाओं, छोटे बच्चों, बड़े-बुजुर्गों, ईलाज के लिए आने-जाने वाले गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को बस रोके बिना यात्रा करने को मजबूर किया जाता है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिसमें यात्रियों के द्वारा बस रोकने की बात कहने पर उन्हें

मुख्यमंत्री और परिवहन सचिव को पत्र लिखकर पूर्व विधायक ने पुनर्रावृति नही होने का किया अनुरोध

आधे रास्ते बस से उतार देने, सामान फेंक देने, दुर्व्यव्यहार एवं

हाथपाई करने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है व यात्रियों को उनके परिवारजनों के सामने अपमानित तक किया गया।

बस यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा जाए रेलवे की तरह बस में भी हेल्पलाईन व्यवस्था शुरू की जाए

बाफना ने मुख्यमंत्री व परिवहन विभाग के सचिव से अनुरोध किया है कि बसों में यात्रियों के साथ अपमानजनक, दुर्व्यवहार व मारपीट करने जैसी घटनाएं घटित न हों और उनकी सम्मानजनक यात्रा का ख्याल रख जाये । इसके लिए रेल्वे प्रशासन के 139 हेल्पलाईन नम्बर की तर्ज पर जिसमें रेल्वे यात्री ट्रेन के अंदर किसी भी अप्रिय परिस्थिति में 139 नम्बर पर शिकायत दर्ज करके अपनी किसी भी समस्या का त्वरित समाधान पाते हैं उसी तर्ज पर छत्तीसगढ सरकार भी प्रदेश भर में बस यात्रियों के लिए हेल्पलाईन नम्बर जारी करे और किसी भी अप्रिय परिस्थिति में यात्री के द्वारा हेल्पलाईन नम्बर पर जानकारी देने व मदद मांगने पर परिवहन विभाग त्वरित कार्यवाही कर लोगों की यात्रा को सुरक्षित व सम्मानजनक बनाये। प्रदेश के समस्त निजी बस संचालकों को अपने-अपने चालक-परिचालक को बुलाकर समझाईश देने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये जाएं और यदि किसी भी बस के चालक-परिचालक द्वारा अपने संचालक व सरकार के दिशा-निर्देश के बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो तत्काल उन पर एफआईआर दर्ज करने के अलावा बस संचालक पर भी कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में पूनः इस प्रकार किसी भी यात्री को अपमानजनक



काटमांड् दरबार),पशुपतिनाय , जनकपुर (सीता मैया का जन्म स्थान),

संपर्क करें:-7354-411411